

## परिशास्त सारणी 2: समेकित बजटीय स्थिति एक नज़ार में

(करोड़ रुपए में)

राज्य वित्त : वर्ष 2009-10 के बजटों का अध्ययन

मंद	2007-08 (लेखे)	2008-09 (बजट अनुमान)	2008-09 (संशोधित अनुमान)	2009-10 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					संभ 2 पर संभ 4		संभ 3 पर संभ 4		संभ 4 पर संभ 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. राजस्व खाता</b>										
क. प्राप्तियाँ	6,23,748	7,19,835	7,37,865	8,04,943	1,14,118	18,3	18,030	2,5	67,078	9,1
ख. ख्यय	5,80,805	6,91,409	7,27,165	8,37,238	1,46,360	25,2	35,756	5,2	1,10,074	15,1
ग. अधिशेष (+) / घाटा (-) (क्र- इव)	42,943	28,426	10,701	-32,295						
<b>II. पूँजी खाता*</b>										
क. प्राप्तियाँ	1,41,987	1,75,306	1,86,201	2,25,114	44,213	31,1	10,894	6,2	38,914	20,9
ख. संवितण	1,71,520	2,01,374	2,13,259	2,18,540	41,739	24,3	11,885	5,9	5,281	2,5
ग. अधिशेष (+) / घाटा (-) (क्र-इव)	-29,532	-26,068	-27,058	6,575						
<b>III. कुल प्राप्तियाँ</b>										
<b>7,65,735</b>	<b>8,95,141</b>	<b>9,24,086</b>	<b>10,30,057</b>	<b>1,58,331</b>	<b>20,7</b>	<b>28,925</b>	<b>3,2</b>	<b>1,05,991</b>	<b>11,5</b>	
<b>7,52,324</b>	<b>8,92,783</b>	<b>9,40,423</b>	<b>10,55,778</b>	<b>1,88,099</b>	<b>25,0</b>	<b>47,640</b>	<b>5,3</b>	<b>1,15,355</b>	<b>12,3</b>	
<b>IV. कुल संवितण</b>										
<b>V. कुल अधिशेष (+) / घाटा (-) (III-IV)</b>	<b>13,410</b>	<b>2,358</b>	<b>-16,357</b>	<b>-25,721</b>						
<b>VI. समग्र अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तयोग्यता</b>										
<b>[V = VI (क्र + छ + ग)]</b>										
क. नकदी शेष (निवल) में	-8,793	1,547	-13,371	-15,499						
बृद्धि (+) कमी (-)										
ख. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से										
जोड़ (+) निकासी (-)	22,160	901	-3,027	-8,751						
ग. भा.टि.डैक्स से अर्थपात्र अंगम और										
ओवरडायट (निवल) की	43	-90	40	-1,470						
चुकैती (+) / मैं चुक्कि (-)										

\* : (i) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थपात्र अंगम, (ii) नकदी शेष निवेश खाते से प्रतिमूलियों की खरीद / बिक्री, और (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा को छोड़ आधार पर लोक लेखा शामिल है, जबकि पूँजीगत व्यय लोक लेखा को छोड़कर है।

**नोट :** 1. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2007-08 (लेखा) के आकड़े संशोधित अनुमानों से संवित हैं।  
2. इसके अलावा परिशास्त के नोट देखें।

**स्रोत :** राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।